



HAMIRPUR POLICE



दिनांक-13/10/2020

कोतवाली सदर

हवाला के 10 लाख रुपये के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 12/13 अक्टूबर 2020 की रात्रि कोतवाली सदर पुलिस व एस0ओ0जी0 टीम हमीरपुर द्वारा चेकिंग की जा रही थी, इसी क्रम में कालपी चौराहा से कुरारा की तरफ रोहन नाला के पास एक नीले रंग की संदिग्ध कार खड़ी दिखायी दी, जिसे चेक करने पर उसके अंदर बैठे व्यक्तियों 1) ओम कान्त विश्वकर्मा पुत्र भजन लाल विश्वकर्मा निवासी गल्ला मंडी कस्बा व थाना सुमेरपुर व 2) उदय प्रताप पुत्र प्रमोद कुमार निवासी सिचाई विभाग कॉलोनी कस्बा व थाना बिवांर के कब्जे से 01 अदद लाल काले रंग के बैग में 10 लाख रुपये नकद व दो अदद एंड्राइड मोबाइल व 01 अदद पर्स बरामद किया गया।

पूछताछ करने पर उपरोक्त अभियुक्त ओमकान्त द्वारा बताया गया कि वह ACHIYANTYA SECURITIES आर्यनगर कानपुर में चार माह पूर्व नौकरी करता था, वहाँ अमित गुप्ता नामक व्यक्ति पैसे का लेन-देन करता था अभियुक्त ने प्रमोद मोदी बनकर जरिये व्हाट्सएप फर्जी सिम आई0डी0 की सिम लगाकर अमित गुप्ता से संपर्क किया एवं उसे एक कोड भेजा जो 10 रुपये के नोट के नम्बर थे, उसके पश्चात उसने उदय प्रताप को उक्त नोट लेकर अमित गुप्ता के पास पीपल कोठी, नया गंज कानपुर नगर स्थित वेन्यू ऑफिस के बगल एक कमरे में भेजा जहाँ से उसने अमित गुप्ता से 10 लाख रुपये प्राप्त किये एवं उसके पश्चात व्हाट्सएप डीएक्टिवेट कर सिम को तोड़ कर फेंक दिया तथा दोनों ने अपने मोबाइल को रिसेट कर दिया तथा बस द्वारा हमीरपुर चले आये एवं रोडवेज बस स्टॉप से कुरारा के लिए साधन न मिलने पर अपने बहनोई को फोन कर बुलाया तथा कार द्वारा जब ये रोहन नाला पर पहुंचे तो गाड़ी सड़क किनारे खडे कर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे,

तभी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध होने पर पूछताछ की गयी तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये, गहन पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा उपरोक्त बातें बतायी गयी जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। अतः दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर कोतवाली सदर हमीरपुर में मु0अ0सं0 211/20 धार- 419/420 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी है साथ ही जांच हेतु इनकम टैक्स विभाग को पत्राचार किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

- 1) 10 लाख रुपये नकद(500 व 200 की गड्डी)
- 2) 2 अदद एंड्राइड मोबाइल
- 3) 1 स्विफ्ट कार नीला रंग (UP16BH4302)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.एसओजी प्रभारी ब्रजेश चन्द्र यादव
- 2.व0उ0नि0 संजय वर्मा
- 3.उ0नि0 गौरव चौबे
- 4.मु0आ0 जितेन्द्र शुक्ला
- 5.का0 रजत सिंह
- 6.का0 कमल कान्त
- 7.का0 राजदीप

